



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1469]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2015/आषाढ़ 19, 1937

No. 1469]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2015/ASHADHA 19, 1937

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2015

का.आ. 1861(अ).—सरकारी परिसर (अनाधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार दिनांक 04 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2042(अ) (फा. संख्या 17/11/2004-जेई) में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा नीचे तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारी को सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के नाते, उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्ति करती है, जो इस तालिका के कॉलम (2) में संगत प्रविष्टि सरकारी परिसरों संबंध में अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा अथवा इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और संपदा अधिकारी को दिए गए दायित्वों को निष्पादन करेगा:-

तालिका

अधिकारी का पदनाम	सरकारी परिसर की श्रेणियां और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा
(1)	(2)
1. उप निदेशक (विपणन), पटसन आयुक्त का कार्यालय, तृतीय एमएसओ बिल्डिंग, ई एंड एफ विंग, सीजीओ काम्पलैक्स, चतुर्थ	सभी कार्यालय, परिसर, अतिथि गृह, शोरूम, खुदरा दुकानें, गोदाम, आवासीय क्वार्टर/आवास, बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट लि., 4, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता द्वारा लीज पर दी गई अथवा लीज पर ली गई, स्वामित्व वाली, कृषि भूमि सहित भूमि, जिसमें मिल परिसरों के भीतर अथवा बाहर स्वामित्व वाले लीज पर दिए

फ्लोर, सेक्टर-1, डीएम ब्लॉक, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700064.	गए अथवा लीज पर लिए गए कार्यालय परसिर, खुदरा दुकान, गोदाम कार्यशाला, कारखाने, आवासीय क्वार्टर सहित शामिल हैं।
--	--

[फा. सं.14/2/2015-पटसन]

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव**MINISTRY OF TEXTILES****(Jute Section)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2015

S.O. 1861(E).—In exercise of the power conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government in partial modification of Notification No. S.O. 2042(E) (F. No. 17/11/2004-JE) dated September 04, 2012 hereby appoints the officer mentioned in Column No (1) of table below, being Gazetted Officer of the Government to be the Estate Officer for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officer by or under the Act, whithin the local limits of his respective jurisdiction, in respect of the Public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the Table:—

TABLE

Designation of Officer (1)	Categories of Public Premises and local limit of jurisdiction (2)
1. Deputy Director (Marketing) O/o Jute Commissioner, 3rd MSO Building, E&F Wing, CGO Complex, 4th Floor, Sector-1, DF Block, Salt Lake City, Kolkata- 700064.	All offices, premises, guest houses, showrooms, retail shops, godowns, residential quarters/accommodations, land including agricultural land owned, leased or held on lease by the Birds Jute & Export Limited, 4, Netaji Subhas Road, Kolkata together with their offices, premises, retail shops, godowns, workshops, factories, residential quarters, premises owned, leased or held on lease within or outside the mills premises.

[F. No. 14/2/2015-Jute]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.